

दिल्ली से आई टीम ने मिरजानहाट में की छापेमारी: नकली किताब बेचनेवाले गिराेह का हुआ खुलासा, 12 लाख की पुस्तकें बरामद



शहर में पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचनेवाले गिराेह का खुलासा हुआ है। दिल्ली से एंटी पायरेसी सेल के पांच सदस्यीय टीम ने मंगलवार को घंटाघर रोड में किताब बेचने वाले दुकानदारों के घर छापेमारी की। वे पटना के अलावा धनबाद से इन किताबों को लाकर बिक्री करते थे। घंटाघर के पास दुकान चलानेवाले मनोज कुमार, आकाश कुमार व ऋतु राज की निशानदेही पर मिरजानहाट महेद्वीनगर में घर स्थित गोदाम में भी छापेमारी की।

जिसमें करीब एक हजार से ज्यादा अलग-अलग प्रकाशन की किताबें मिली हैं, जिसकी कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए है। छापेमारी बुधवार को भी होगी। छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे संजीव राघव ने बताया कि करीब 1000 से ज्यादा पायरेटेड किताबें बरामद की गईं। जिसमें भारती भवन, मैग्रोहिल, स्पेक्ट्रम, एस चांद और धनपत राय कंपनी की किताबें हैं। एक और बंद गोदाम से लाखों रुपये की किताबें मिलीं। मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली और यूपी में नकली किताबों की फैक्ट्री के कर्मियों की निशानदेही पर हुई कार्रवाई

एंटी पायरेसी सेल के पदाधिकारी संजीव राघव ने बताया कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली के गोकुलपुर और यूपी के गाजियाबाद में एंटी पायरेसी सेल ने छापेमारी कर कुछ ब्रांडेड कंपनियों की नकली किताबों की फैक्ट्री का उद्घेदन किया था। फैक्ट्री में पकड़े गये कर्मियों की निशानदेही पर भागलपुर और गया जिले में पायरेटेड किताबों के अवैध कारोबार की जानकारी मिली थी।

सोमवार को गया में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली किताबों की खेप बरामद की गयी थी। इसके बाद टीम मंगलवार को भागलपुर पहुंची। घंटाघर चौक सहित कुछ अन्य जगहों पर पुरानी किताबें बेचने वाले मनोज कुमार, आकाश कुमार सहित ऋतु राज द्वारा इस अवैध कारोबार की जानकारी मिली।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/bihar/bhagalpur/news/houses-of-fake-books-sellers-raided-books-worth-12-lakhs-recovered-129617931.html>